

## प्रेस नोट दिनांक 10-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना लोटन पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल ..... वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ...../- ₹0 के राजस्व की प्राप्ति ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 442 वाहनों की नीलामी कर 58,73,810/-₹0 राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

दिनांक 10.01.2023 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, बिन्देश गुप्ता, नायब तहसीलदार, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना लोटन में लम्बित माल मुकदमाती से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 21 वाहनों जिसमें 10 दोपहिया वाहन (मालमुकदमाती- 05, लावारिश- 01, एम0वी0 एक्ट में सीज – 04), 08 अदद एम0वी0 एक्ट में सीज तीन पहिया वाहन, 03 अदद एम0वी0 एक्ट में सीज चार पहिया वाहन की नीलामी थाना लोटन परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 2,19,480/-₹0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिडई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है । अब तक कुल 442 वाहनों की नीलामी से कुल 58,73,810/- ₹0 राजस्व की प्राप्ति हुई है ।



### **प्रेस नोट थाना कोतवाली बांसी दिनांक 10.01.2023**

**थाना बांसी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी वांछित इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में कल दिनांक 09.01.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2022 धारा 376/384/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित 10 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. अर्जुन पुत्र रामसेवक साकिन चरथरी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्र0नि0 अनुज कुमार सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0 चन्द्रप्रताप सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे0का0 रामजी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 विकास ओझा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

### **प्रेस नोट- दिनांक 10.01.2023 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व अखिलेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में बलजीत कुमार राव, प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 10.01.2023 को उसका बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 261/2022 धारा 366 भादवि में वांछित अभियुक्त हबीबुर उर्फ हबीबुल बशर पुत्र उमर निवासी सबेया थाना रामनगर जनपद बेतिया बिहार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

- 01- हबीबुर उर्फ हबीबुल बशर पुत्र उमर निवासी सबेया थाना रामनगर जनपद बेतिया राज्य बिहार ।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. उ0नि0 रामकुमार राजभर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. मुख्य आरक्षी मुस्तकीम अंसारी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट- दिनांक 10-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 10-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है । 01परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0प्रियम्बदा सिंह , म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

### **निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

01- जितेंद्र कुमार पुत्र रामशरण साकिन मोहनपुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट- अपराध गोष्ठी दिनांक 10-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना डुमरियागंज पर डुमरियागंज सर्किल के थानों का अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण/विवेचकगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 10-01-2023 को थाना डुमरियागंज पर डुमरियागंज सर्किल के थाना डुमरियागंज, पथरा बाजार, भवानीगंज, व त्रिलोकपुर का अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर डुमरियागंज सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, विवेचकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये ।

**महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।**

- 01- विगत 5 वर्षों में सम्पत्ति संबंधी अपराधों में नामजद प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध आप्रेशन प्रहार के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा ।
- 02- धारा 363, 366 भादवि0/गुमशुदा/लापता व बरामदगी हेतु शेष बच्चों का विवरण ।
- 03- विवेचक वार लंबित/अग्रिम/आंशिक विवेचना ।
- 04- 02 माह से अधिक अवधि से लम्बित पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा ।
- 05- ITSSO पोर्टल पर लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा ।
- 06- वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा ।
- 07- पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा ।
- 07- आप्रेशन क्लीन के तहत माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के निस्तारण की समीक्षा ।
- 08- आगामी नगर पालिका/नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत की गयी कार्यवाहियों /तैयारियों की समीक्षा ।

तत्पश्चात महोदय द्वारा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

## प्रेस नोट दिनांक 10.01.2023 जनपद-सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा डुमरियागंज में किया गया पैदल गस्त/ भ्रमण, आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा के भाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज दिनांक 10.01.2023 को थाना डुमरियागंज के कस्बा डुमरियागंज में पैदल गस्त / भ्रमण किया गया । पैदल गस्त के दौरान दुकानदारों, व्यापारी बन्धुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से मुलाकात कर वार्ता की गयी व लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । आमजन को आपस में प्रेम, सौहार्द बनाए रखने हेतु जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस प्रशासन के सहयोग की भी अपील की गयी । पैदल गस्त के दौरान राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

## प्रेस नोट- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 10.01.2023

थाना पथरा बाजार पुलिस द्वारा शांति एवं सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने व किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने हेतु दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ कस्बा कोनकटी में दंगा रिहर्सल कराया गया ।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, राजेश तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती के आदेशानुसार आगामी त्यौहार व गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत आज दिनांक 10.01.2023 थाने पर उपस्थित सभी अधिकारी /कर्मचारी से शस्त्रों की साफ सफाई भी कराई गयी। तत्पश्चात दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ कस्बा कोनकटी में दंगा रिहर्सल कराया गया ।

